


भारत का राजपत्र
The Gazette of India
 प्राधिकार से प्रकाशित
 PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 18] नई दिल्ली, शनिवार, मई 5, 2001 (वैशाख 15, 1923)
 No. 18] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 5, 2001 (VAISAKHA 15, 1923)

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके,
 (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
 [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर

प्रधान कार्यालय

इन्दौर, दिनांक 24 अप्रैल 2001

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक के उन शेयर-धारियों के नाम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिन्हें वर्ष 2000-2001 के लिए उनके द्वारा धारित शेयरों पर लाभांश देय हो सकता है, यदि बोर्ड द्वारा घोषित किया जाए, स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर के शेयरधारियों का रजिस्टर अंतरण के लिए दिनांक 11-6-2001 से 18-6-2001 तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेगा।

निदेशक मण्डल के आदेश से

एम्. श्रीनिवासन

प्रबंध निदेशक

इण्डियन ओवरसीज बैंक

औद्योगिक संबंध विभाग

केन्द्रीय कार्यालय

चेन्नई-600002, दिनांक 4 अप्रैल 2001

जी०एम०आर० सं० आई०आर०डी०/184/06—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12, की उपधारा 2 के माध्यम से धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इण्डियन ओवरसीज बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार की पूर्ण स्वीकृति से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन विनियमों को इण्डियन ओवरसीज बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) (संशोधन) विनियम 2001 कहा जा सकेगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. इण्डियन ओवरसीज बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम 1976 में विनियम 6 में, उप-विनियम (2) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(2) जब कभी अनुशासनिक प्राधिकारी की राय हो कि किसी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ के दुराचरण या कदाचार के किसी अभ्यारोपण की सत्यता की जांच करने के लिए आधार है, तो वह स्वयं उसकी सत्यता की जांच कर सकेगा या किसी अन्य व्यक्ति, जो लोक सेवक है या रहा हो (जिसे इसमें इसके पश्चात् जांच प्राधिकारी कहा गया है) की उसकी सत्यता की जांच करने के लिए नियुक्त कर सकेगा।

स्पष्टीकरण :

जब अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं जांच करता है तो उप-विनियम (8) में लेकर उप-विनियम (2) तक में जांच प्राधिकारी के प्रति किसी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह अनुशासनिक प्राधिकारी के प्रति निर्देश है।”

बी० स्वामिनाथन
महा प्रबंधक

पंजाब नेशनल बैंक

प्रधान कार्यालय

नई दिल्ली-110066, दिनांक 26 मार्च 2001

सं० पीएनबी/डीएसी/पी/1/2001—बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब नेशनल बैंक का निदेशक मण्डल भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से तथा केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम 1977 में संशोधन करने के लिए, एतद्द्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है नामतः :

1. (i) इन विनियमों को पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम 2001 कहा जा सकेगा।

(ii) ये विनियम राजपत्र के प्रकाशन के तारीख से लागू होंगे।

2. पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1977 में—

(i) विनियम 3 के उप-विनियम (1) में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, नामतः :—

“प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी बैंक के हितों का सुनिश्चित करने एवं उनकी रक्षा करने के लिए सर्वदैव सभी संभव उपाय करेगा तथा अपना कार्य पूरी मत्पनिष्ठा, ईमानदारी, निष्ठा एवं तत्परता से करेगा तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो एक अधिकारी कर्मचारी के लिये असोभनीय हो।”

(ii) विनियम 3 के उप-विनियम (3) के बाद निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाएगा, नामतः :—

“वर्शा कि, जहाँ ऐसे निदेश पत्रिकीय रूप में दिए जाएं, इन निदेशों की पृष्ठि उसके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा लिखित रूप में की जाएगी।”

(iii) विनियम 6 के उप-विनियम (1) में विश्राम उपबंध के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

“किन्तु ऐसी मंजूरी के बिना कोई अधिकारी कर्मचारी, सामाजिक या धार्मिक, अवैतनिक कार्य या साहित्य, कला, वैज्ञानिक कार्य या साहित्य, कला, वैज्ञानिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक या सामाजिक प्रकार के प्रासंगिक कार्य कर सकता है, बशर्ते कि उससे उसकी कार्यालय ड्यूटियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। लेकिन यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके लिए कारण बताते हुए ऐसा न किया जाने का अनुरोध दिया जाता है तो वह ऐसा कार्य नहीं करेगा या जारी नहीं रखेगा।”

(iv) विनियम 6 के उप-विनियम (4) में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

“(4) सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना कोई अधिकारी कर्मचारी किसी सार्वजनिक निकाय या किसी प्राइवेट व्यक्ति के लिए अपने द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए शुल्क, पारिश्रमिक, मानदेय ऐसे किसी रूप में नकद अथवा इस प्रकार का कोई भुगतान स्वीकार नहीं करेगा।”

के० एन० पृथ्वीराज
महाप्रबंधक

कर्मचार, राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 28 मार्च 2001

सं० एन-15/13/1/2000-यो० एवं वि० (2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ प्रतिनित्य रूप से, राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 15 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत से सहानिदेश के 01 अप्रैल, 2001 को, जारी है।

के रूप में निश्चित की है जिसमें उक्त विनियम-95-क तथा केन्द्र कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ केवल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में सीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :—

“जिला पालकाट के निम्नलिखित तालुक में राजस्व ग्राम नल्लेपिल्लि के अधीन आने वाले क्षेत्र”।

एन० आर० शिन्वर
निदेशक (यो० एवं वि०)

क्षेत्रीय कार्यालय, उड़ीसा

“पंचदीप” भवन, जनपथ यूनिट-9

भुवनेश्वर-22, दिनांक 10 अप्रैल 2001

विषय : कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत आस्का क्षेत्र के लिए स्थानीय समिति का पुनर्गठन।

सं० 44यू-34/12/4 दि०—एन० द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम-10 (क) के अंतर्गत गठित स्थानीय समिति, आस्का क्षेत्र का पुनर्गठन कर दिया गया है। इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे और यह इन अधिसूचना के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी।

1. विनियम-10 (क) (1) (क) के अंतर्गत
उप जिलाधिकारी, बरहमपुर, गंजाम अध्यक्ष

2. विनियम-10 (क) (1) (ख) के अंतर्गत
जिला श्रम अधिकारी, बरहमपुर, गंजाम सदस्य

3. विनियम-10 (क) (1) (ग) के अंतर्गत
प्रभारी बीमा चिकित्सा अधिकारी, सदस्य
कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, आस्का

4. विनियम-10 (क) (1) (घ) के अंतर्गत
नियोजक प्रतिनिधि

(1) श्री सुशान्त कुमार महापात्र सदस्य
मुख्या निरीक्षक, आस्का स्पिनिंग मिल्स, आस्का

(ख) श्री बसंत कुमार अधिकारी सदस्य
मुख्य समयपाल, आस्का स्पिनिंग मिल्स, आस्का

5. विनियम-10 (क) (1) (ङ) के अंतर्गत
कर्मचारी प्रतिनिधि

(1) श्री पीतवाश डाकुआ, बाइंडर सदस्य
आस्का स्पिनिंग मिल्स, आस्का

(2) श्री हाडुबन्धु नायक, सचिव, आस्का स्पिनिंग सदस्य
मिल्स, स्टाफ एसोसिएशन नुआगां, गंजाम

6. विनियम-10 (क) (1) (च) के अंतर्गत
प्रबंधक, स्था० का०, कर्मचारी राज्य बीमा सदस्य
निगम, बरहमपुर पदेन सचिव

एम० रामाराव
क्षेत्रीय निदेशक

STATE BANK OF INDORE

HEAD OFFICE

Indore, the 24th April 2001

Notice is hereby given that for the purpose of ascertaining the names of the shareholders of Bank to whom the dividend on their holdings for the year 2000-2001 may become payable, if declared by the Board, the Register of shareholders of the State Bank of Indore will remain closed for transfer of shares from 11-06-2001 to 18-06-2001 (both days inclusive).

By Order of the Board of Directors.

S. SRINIVASAN
Managing Director

INDIAN OVERSEAS BANK INDUSTRIAL RELATIONS DEPARTMENT CENTRAL OFFICE

Chennai, the 4th April 2001

GSR No. IRD/184/06—In exercise of the powers conferred by Section 19 read with Sub-Section (2)

of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) the Board of Directors of Indian Overseas Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations, namely :—

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT :

(1) These regulations may be called the Indian Overseas Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) (Amendment) Regulations, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Overseas Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976, in regulation 6, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

“(2) Whenever the Disciplinary Authority is of the opinion that there are grounds for inquiring into the truth of any imputation of misconduct or misbehaviour against an officer employee, it may itself enquire into, or appoint any other

person who is, or has been, a public servant (hereinafter referred to as the Inquiring authority) to inquire into the truth thereof.

EXPLANATION

When the Disciplinary Authority itself holds the inquiry any reference in sub-regulation (8) to sub-regulation (21) to the Inquiring authority shall be construed as reference to Disciplinary Authority.

B. SWAMINATHAN,
General Manager

PUNJAB NATIONAL BANK

(HEAD OFFICE)

New Delhi, the 26th March 2001

No. PNB/DAC/P/12001:—In exercise of the powers conferred by section 19, of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) the Board of Directors of Punjab National Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to amend the Punjab National Bank Officer Employees' (Conduct) Regulations, 1977 namely :—

1. (i) These Regulations may be called the Punjab National Bank Officer Employees' (Conduct) Amendment Regulations, 2001.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the "Official Gazette".

2. In the Punjab National Bank Officer Employees' (Conduct) Regulations, 1977 :—

(i) in regulation 3, for sub-regulation (1), the following shall be substituted, namely :—

"(1) Every officer employee shall, at all times take all possible steps to ensure and protect the interests of the bank and discharge his duties with utmost integrity, honesty, devotion and diligence and to nothing which is unbecoming of an officer employee".

(ii) In regulation 3, after sub-regulation (3), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided wherever such directions are oral in nature the same shall be confirmed in writing by his superior official".

(iii) In regulation 6, in sub-regulation (1), for the existing proviso, the following shall be substituted, namely :—

"Provided that an officer employee may, without such sanction undertake honorary

work of a social or charitable nature or occasional work of a literary, artistic, scientific, professional, cultural, educational, religious or social character, subject to the condition that his official duties do not thereby suffer but he shall not undertake or shall discontinue such work if so directed by the competent authority after recording reasons for the same".

(iv) in regulation 6, for sub-regulation (4), the following shall be substituted, namely :—

"(4) No officer employee shall accept any payment in the form of fee, remuneration, honorarium and the like in cash or kind for any work done by him for any public body or any private person without the sanction of the competent authority".

K. N. PRITHVIRAJ
General Manager

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi the 28th March 2001

No. N-15/13/6/1/2000-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46 (2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st April, 2001 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Kerala Employees' State Insurance (Medical-Benefit) Rules, 1957, shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely :—

"The areas within the Revenue Villages of Nalleppilly in Chittoor Taluk, Palakkad District"

N. R. DHINWAR,
Director (P&D)

REGIONAL OFFICE, ORISSA

Bhubaneswar-22, the 10th April 2001

Sub. : Reconstitution of Local Committee under E. S. I. Scheme for Aska Area.

No. 44-V-34/12/41-94-Bft.—It is hereby notified that the Local Committee, Aska Area set up under Regulation-10 (A) of the E. S. I. (General) Regulations, 1950 has been reconstituted consisting of the following members with effect from the date of the issue of this notification :—

1. Under Regulation 10 (A) (1) (a)

Sub-Collector, Berhampur, Ganjam Chairman

- | | |
|--|--|
| <p>2. Under Regulation 10 (A) (1) (b)
Distt. Labour Officer, Berhampur,
Ganjam Member</p> <p>3. Under Regulation 10 (A) (1) (c)
I. M. O. In-charge of E. S. I. Dispensary
Aska. Member</p> <p>4. Under Regulation 10 (A) (1) (d)
Employers' Representative</p> <p>(i) Shri Sishant Kumar Mohapatra, Security
Inspector, Aska Spinning Mills, Aska Member</p> <p>(ii) Shri Basanta Kumar Adhikari, Head
Time Keeper, Aska Spinning Mills, Aska Member</p> <p>5. Under Regulation 10 (A) (1) (c)
Employees, Representative</p> <p>(i) Shri Elabash Daku, Winder,
Aska Spinning Mills Aska Member</p> <p>(ii) Shri Hadubandhu Nahak, Secretary,
Aska Spinning Mills, Staff Association,
Naugan, Ganjam Member</p> | <p>6. Under Regulation 10 (A) (1) (f)
Manager, L. O., E. S. I. Corporation Member
Berham Pur Ex-officio Secretary</p> <p style="text-align: right;">M. RAMA RAO,
Regional Director</p> |
|--|--|

CORRIGENDUM

In the Notification published at Page No. 2130 of the Gazette of India. dt. 26-6-99 regarding re-constitution of Local Committee for Jajpur Road Area, the word "Jajpur Road" occurring in Line 1 under Regulation 10-A (1) (a) may be read as "Jajpur".

M. RAMA RAO,
Regional Director

